



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

माघ 3, बुधवार, शाके 1934-जनवरी 23, 2013
Magha 3, Wednesday, Saka 1934-January 23, 2013

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने
की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये
सार्वजनिक और निजी विज्ञापन,

राजस्थान वित्त निगम

मुख्यालय: उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-सकीम, जयपुर-302005

अधिसूचना

जयपुर, 04 जनवरी, 2013

संख्या: आरएफसी/एफ.लॉ-3/एलपीएम/6/1558 :- राजस्थान वित्त निगम का संचालक मण्डल, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये पूर्व आदेशों को निरस्त करते हुए, "राजस्थान फाईनेन्शियल कॉर्पोरेशन जनरल रेग्यूलेशन, 2002" के रेग्यूलेशन संख्या 74 सपटित "दी स्टेट फाईनेन्शियल कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1951" के प्रावधानों के तहत निगम के अधिकारियों को निम्न कार्यों हेतु विशेष रूप से अधिकृत करता है :-

संचालक मण्डल की आज्ञा से
दिनेश मोहन,
सचिव

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION

Head Office: Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005

NOTIFICATION

Jaipur, 04 January, 2013

No. RFC/F.Law-3/LPM/6/1558 :- The Board Of Directors of Rajasthan Financial Corporation, in supersession of earlier orders issued in this behalf, in terms of Regulation 74 of the "Rajasthan Financial Corporation General Regulations, 2002" read with the provisions of the "State Financial Corporations Act, 1951", is pleased to authorize its officers to execute following Acts on behalf of the Corporation:-

Authorized Officer	Nature and extent of Authorization
Executive Director/ General Manager/ Dy. General Manager/Secretary Manager/ Dy. Manager/ Asstt. Manager of the Corporation and any other officer as authorised by the Managing Director of the Corporation.	(a) To sign and execute on behalf of the Corporation Mortgage Deeds, Gurantee Deeds, Tripartite Agreement, Deed of Modification and all other Documents/ papers connected with the business and other activities of the Corporation and also to accept original title Documents deposited for the creation of Equitable Mortgage, Registered Mortgage & other charges for the loans & other advances/ facility granted by the corporation. (b) To sign Plaints, Written Statements, Vakalatnama, Affidavit, Undertaking and all other Documents and papers relating to legal proceedings by and against the Corporation. (c) To sign all other Agreements, Sale Deeds, other deeds, MoUs, Affidavits, declarations, Undertakings and Papers/Documents etc. connected with the Corporation.

By Order of Board of Directors,
दिनेश मोहन,
Secretary.